



15th September, 2025

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 Scrip Code: **507779** **National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, Plot No. C/1,

G Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai 400 051

Trading Symbol: KANPRPLA

Sub: Submission of Newspaper Notice- Notice to Shareholder

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, In addition to our letter dated 08th July, 2025, we hereby enclose copies of the notice published for the Equity Shareholders of the Company regarding the Special Window for Re-lodgement of Transfer of Physical Shares.

The said notice was published in Business Standard Newspaper on Monday, 15^{th} Septmeber 2025 in compliance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 02^{nd} July 2025.

Kindly take this on record and oblige.

Thanking You.

Yours Faithfully, For **KANPUR PLASTIPACK LTD.**

(Ankur Srivastava) Company Secretary

Encl: A/a









कर्मियों के वेतन भुगतान में देर कर रही स्पाइसजेट

स्पाइसजेट पिछले कुछ महीनों से अपने कई कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी कर रही है। एक सुत्र ने यह जानकारी दी।स्पाइसजेट के 55,000 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अगस्त का वेतन मिल गया है, जबकि बाकी कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। सूत्र ने कहा, 'स्पाइसजेट ने एक बार फिर कर्मियों के वेतन भुगतान में देरी शुरू कर दी है। जहां 55,000 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मियों को समय पर भूगतान किया जा रहा है, वहीं बाकी कर्मचारी को 10-15 दिनों की देरी से भगतान किया जा रहा है। देरी से वेतन पाने वालों में ज्यादातर सहायक प्रबंधक और उससे ऊपर के कर्मचारी हैं।' स्पाइसजेट ने इस मुद्दे पर भेजे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम स्थित स्पाइसजेट में कुल 6,484 कर्मचारी थे।

स्थानीय दृष्टिकोण अपना रही ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज

क्षेत्रीय कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज स्थानीय दुष्टिकोण अपना रही है और 'भारत को केवल एक देश के रूप में नहीं, बल्कि कई देशों के रूप में' देख रही है ताकि प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सके तथा आगे की रणनीति और व्यापक बना सके। कंपनी के वाइस चेयरमैन व प्रबंध निदेशक वरुण बेरी ने यह बात कही। कंपनी 'कीमत युद्ध' में नहीं उतरेगी। बेरी ने कहा कि वह ब्रांड क्षमता, कार्यान्वयन और 70 कारखानों के नेटवर्क तथा देश भर में फैले विशाल वितरण नेटवर्क का लाभ उठाएगी, जिससे उसके उत्पाद सबसे निचले तबके तक पहुंच सकें।

e-lodgement requests for the transfer of physical shares

Company Secretary & Compliance Officer

D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur-208022

माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

ऋण क्रमांक : CDUD2LP2203020001

भौतिक कब्जे की तिथि- 12-सितंबर-2025

(प्रोपराइटर सुरेश चंद्र कुमावत)

एनपीए- 4-मई-2024

स्थान : उदयप्

तिथि : 12.09.2025

Kanpur Plastipack Limited

Tel: +91 512 2691113-116

SHRIRAM

SHRIRAM City

Date: 13.09.2025

Email: secretary@kanplas.com

CIN: L25209UP1971PLC003444

Regd. Office - D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur - 208 022 TEL: +91 (0512) 2691 113 - 6; FAX: +91 (0512) 2691117; Email: secretary@kanplas.com; Web: www.kanplas.com

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02

2025, the Company is pleased to offer a one-time Special Window for shareholders to subn

This Special Window will be open from July 07, 2025 till January 06, 2026, and is specificall

applicable to cases where the original transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 and were returned or rejected due to deficiencies in documentation, process, or any other

Kindly note that during this window, shares re-lodged for transfer will be processed only

Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents t he Company or its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) within the stipulated period.

श्रीराम फाइनेंस

इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032

वेबसाइट : www.shriramfinance.in

कब्जा सूचना

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार

'श्रीराम सिटी युनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम टांसपोर्ट फाइनेंर

लिमिटेड'' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट

फाइनेंस लिमिटेड'' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया

जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति

हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत **श्रीरा**म

फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित

(प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम

की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जटारो

को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ

कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा

जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते

अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतदारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहा

न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि

कर्जदार का नाम एवं पता

तथा उस पर ब्याज के लिए **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

65, गणेश चौहारा, कछारा मौहल्ला, धोइंदा, राजसमंद, राजस्थान-313324

श्रीमती लक्ष्मी देवी कुमावत पत्नी सुरेश चंद्र कुमावत (सह-कर्जदार∕गारंटर

65, गणेश चौहारा, कचरा मोहल्ला, धोइंदा, राजसमंद, राजस्थान-31332**4**

ı. सुश्री संजय कुमावत पुत्र सुरेश चंद्र कुमावत (सह-कर्जदार/गारंटर)

65, गणेश चौहारा, कछारा मौहल्ला.धोइंदा, राजसमंद, राजस्थान-313324

मांग सुचना के अनुसार देय राशि

मांग सचना दिनांक- 10-05-2024 रु. 3051418/- (रुपये तीस लाख इक्यावन

हजार चार सौ अठारह मात्र) दिनांक ०९ मई २०२४ तक फोरक्लोजर राशि के

संपत्ति का विवरण

भूमि और भवन का समस्त भाग, संपत्ति सहित, पट्टा संख्या 25/85, आराजी संख्या

743. रेव. गाँव धोइंदा. तहसील और जिला राजसमंद (राजस्थान) में स्थित प्लॉट

इसका क्षेत्रफल 3630 वर्ग फुट है। सीमाएं : उत्तर में : श्री मोहन लाल कच्छारा

के प्लॉट से, दक्षिण में : श्री मिट्टा लाल कच्छारा के नोहरे से, पूर्व में : 25

प्रतिभुत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार

का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया

अनुसार नियम और शर्तों के अनुसार आगे ब्याज और शुल्क के साथ।

फीट चौड़े रास्ते से, पश्चिम में : आराजी संख्या 743/2 की भूमि से।

बन्धक सम्पत्ति पर 12 **सितम्बर**, 2025 को **भौतिक कब्जा** कर लिया है।

1. श्री सरेश चंद्र कमावत पत्र भंवर लाल कमावत (कर्जदार)

2. मैसर्स दीप लक्ष्मी शू सेंटर (सह-कर्जदार/गारंटर)

शिश गेस्ट हाउस, कांकरोली, राजसमंद, राजस्थान-313324

पंजीकृत कार्यालय : श्री टॉवर्स, प्लॉट नं. 14ए, साउथ फेस

शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 156, दूसरी मंजिल, एलेन सॉल शोरूम के ऊपर, राठौर नगर, वैशाली, जयपुर-302021,

Skyline Financial Services Private Limite

Tel: +91-11-40450193-97, 26812682-83

For Kanpur Plastipack Limited

(Ankur Srivastava)

Registrar and Share Transfer Agent D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area

Phase - I, New Delhi - 110 020

Email id: info@skylinerta.com

नवाचार से जुड़ी कंपनियों पर वेंचर कैपिटल का बड़ा दांव

उदिशा श्रीवास्तव नई दिल्ली, 14 सितंबर

प-टेक अब निवेशकों के लिए विशेष दांव नहीं रह गया है। भारत में कई सामान्य वेंचर कैपिटल (वीसी) फर्मों के पोर्टफोलियो में अब इसकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गई है। निवेश परिदश्य में कंज्यूमर-फर्स्ट दांव से अब तकनीक-संचालित कंपनियों की ओर बदलाव का संकेत मिल रहा है। ऐसे में वीसी फर्में उन स्टार्टअप में निवेश बढा रही हैं जो शोध-आधारित नवाचार को संभावना वाले बिजनेस मॉडलों के साथ जोड़ रही हैं।

वर्ष 2019 में अपना पहला डीप-टेक निवेश करने वाली वीसी फर्म कॉर्नरस्टोन वेंचर्स ने कहा कि उसने पिछले कैलेंडर वर्ष में चार निवेश किए और उसके इस वर्ष पांच डीप-टेक फर्मों में निवेश करने की संभावना है। फर्म के प्रबंध साझेदार अभिषेक प्रसाद ने कहा, 'हमारे फंड-1 में कम से कम 60-70 प्रतिशत कंपनियां या तो पूरी तरह से डीप-टेक थीं या व्यावसायिक परिणाम देने के लिए नए



जमाने की प्रमुख तकनीकों का लाभ उठा रही थीं। इनमें युएवी में न्यूस्पेस रिसर्च ब्लॉकचेन निजी टेक्नोलॉजीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर में धीवे टेक्नोलॉजीज, वेब3.0 में डॉपलर, एआई असिस्टेंट में नाइट्रो और लोन बुक हेल्थ असेसमेंट के लिए एमएल में क्रेडिट निर्वाण शामिल हैं।'

युनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के कुल फंड का 64.7 प्रतिशत डीप-टेक क्षेत्र में निवेश गया है। इसमें नेत्रसेमी ऑर्बिटएड. टेक्नोलॉजीज, आइरोव और डीपएल्गोरिदम जैसी

कंपनियां शामिल हैं। इसके संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर अनिल जोशी ने बताया कि कंपनी मौजुदा समय में अपने तीसरे फंड (1,000 करोड़ रुपये) से धन का निवेश कर रही है जिसमें डीप-टेक कंपनियों पर ध्यान दिया जा रहा है। 2024 में उसने डीप-टेक में छह निवेश किए और 2025 के अंत तक उसका लक्ष्य ऐसी सात कंपनियों में निवेश करना है।

इसी तरह ऑल इन कैपिटल ने कहा कि इस साल के अंत तक वह तीन से ज्यादा कंपनियों में निवेश करने की योजना बना रही है जिससे अत्याधुनिक नवाचार पर उसका ध्यान और मजबूत होगा। अब तक उसने दो निवेश किए हैं, एक ड्रोन में और दुसरा रोबोटिक्स क्षेत्र में। 2022 में स्थापित इस कंपनी का लक्ष्य डीप-टेक क्षेत्र में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है। ऑल इन कैपिटल के संस्थापक और साझेदार कुशल भागिया के अनुसार मौजूदा समय में कंपनी के पोर्टफोलियो में डीप-टेक और एआई की भागीदारी 50 प्रतिशत है।

प्रमुख निवेश नेटवर्क 'इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स' का भी कहना है कि डीप-टेक उसके निवेशकों के लिए मजबूत फोकस क्षेत्र बना हुआ है और फर्म ने कुल 15 कंपनियों पर दांव लगाया है। इनमें डोन में बोनवी एयरो, स्पेस-टेक में जोवियन एयरोस्पेस और ड्रीमएयरोस्पेस जैसी कंपनियां शामिल हैं।

मार्केट इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में कुल डीप-टेक फंडिंग 1.5 अरब डॉलर थी जिसमें 432 राउंड शामिल थे। 2025 में अभी तक कुल डीप-टेक फंडिंग 202 राउंड के साथ 1.09 अरब डॉलर है।

बालाजी में हिस्सा

फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 1 अरब डॉलर जुटाए थे।

उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि 22 सितंबर से वस्तु एवं सेवा कर में कटौती

लागु हो रही है, जिसके बाद कंपनियों को बिक्री से आय बढ़ने की उम्मीद है।

स्नैक्स बनाने वाली हल्दीरा ने इसी साल मार्च में इंटरनैशनल होल्डिंग कंपनी.

अल्फा वेव ग्लोबल और सिंगापुर की सरकारी निवेश फर्म टेमासेक को 10

बालाजी की योजना की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया, 'यह

कंपनी वृद्धि के अगले चरण को रफ्तार देने के लिए पेशेवरों को लाने की भी

सोच रही है।' उन्होंने आगे कहा कि कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने

की भी योजना है मगर इसमें 5 से 6 साल लग सकते हैं। नकदी से लबालब

पीई फर्में भारत के ब्रांडेड कंज्यूमर, टेक्नॉलजी और हेल्थकेयर क्षेत्र में अवसर

तलाश कर रही हैं। अमेरिका के एक निवेशक ने कहा कि वे उपभोक्ता खंड

में अच्छे सौदे की तलाश कर रहे हैं और कई कंपनियों से बातचीत चल रही

है। राजकोट में मुख्यालय वाली बालाजी वेफर्स चिप्स, नमकीन और

कन्फेक्शनरी की बिक्री बालाजी ब्रांड से करती है। पश्चिम और मध्य भारत

में इसकी गहरी पैठ है। इसके उत्पाद ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिम एशिया के

बाजारों में भी निर्यात होते हैं। कैपिटलाइन के अनुसार वित्त वर्ष 24 में कंपनी

ने 5,453.7 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री की जो इससे पिछले वित्त वर्ष की

तुलना में 10.7 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 24 में कर चुकाने के बाद कंपनी

का मुनाफा 41.4 फीसदी बढ़कर 578.8 करोड़ रुपये हो गया। मार्केट शोध

फर्म आईमार्क के अनुसार भारत के पैकेज्ड फूड बाजार का मूल्यांकन 2024

में 121.3 अरब डॉलर था जिसके 2033 तक 6.5 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि

ईएस-टेक से बढ़ेगी टाटा टेक की पैठ

अभीक दास बेंगलूरु, 14 सितंबर

टाटा टेक्नोलजीज द्वारा जर्मनी की वाहन क्षेत्र की इंजीनियरिंग सेवा प्रदाता कंपनी ईएस-टेक का 7.5 करोड़ यूरो में अधिग्रहण उसे दुनिया के प्रमुख वाहन बाजारों में से एक में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने और अपने ग्राहक आधार में विविधता लाने में सक्षम बनाएगा।

टाटा टेक्नोलजीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी वॉरेन हैरिस ने कहा, 'यह अधिग्रहण ऐसी रणनीतिक छलांग है, जो वाहन क्षेत्र की मूल्य श्रंखला में सम्चा वाहन इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है तथा नवीन इंजीनियरिंग क्षमताओं तक पहंचने में अपनी वैश्विक मौजुदगी का विस्तार करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'

हैरिस ने बातचीत के दौरान बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि

विचार कर रही है और यह नवीनतम इस अधिग्रहण से अधिग्रहण इस दिशा टाटा टेक्नोलजीज में पूरी तरह उपयुक्त को जर्मनी में अपनी है। इसका भुगतार अगले दो वर्षों में ग्राहक आधार में किया जाएगा और इसमें प्रदर्शन पर विविधता लाने में आधारित लाभ भी मदद मिलेगी शामिल हैं।

वल्फ्सबर्ग की ईएस-टेक गहन विशेषज्ञता वाला एसिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), कनेक्टेड ड्राइविंग और डिजिटल इंजीनियरिंग प्रदान करती है। 500 से ज्यादा कर्मचारियों और करोड़ों यूरो के राजस्व वाली ईएस फॉक्सवैगन जैसे अपने ग्राहकों को जटिल प्रणाली वाले इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करती है। इंगोलस्टेड और बर्लिन के अलावा चीन के चांगहन और मोरक्को के कैसाब्लांका में भी इसके कार्यालय हैं।

उन्होंने कहा. 'उनके पास ई-मोबिलिटी के कुछ पुर्जे भी हैं और बढ़ा रह हैं।

जर्मनी के बाजार तक उनकी काफी पहंच है। हमारी कई जरूरतें उनकी क्षमताओं के अनुरूप थीं। इससे हमें जर्मनी में और ज्यादा ग्राहक हासिल करते हुए तथा टाटा मोटर्स के साथ अपने मुख्य संबंधों से हटकर विविधता लाते हए अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने में भी मदद मिलती है।'

भारतीय इंजीनियरिंग अनुसंधान एंव विकास (ईआरऐंडडी) क्षेत्र की कंपनियों के लिए यूरोप पसंदीदा क्षेत्र बन चुका है क्योंकि इस क्षेत्र के वाहन विनिर्माता चीनी प्रतिस्पधियों से मिल रही प्रतिस्पर्धा को समझते हैं, जिन्होंने बाजार में सस्ती लेकिन और ज्यादा उन्नत तकनीक वाली कारों की भरमार कर दी है।

हैरिस ने कहा कि यूरोपीय वाहन विनिर्माताओं ने इस बात का महसूस किया है कि उन्हें तेजी से काम करना होगा और किफायती लागत वाले तरीके से क्षमता और काबिलियत का निर्माण करना होगा। इसके परिणामस्वरूप यूरोप कंपनी एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और में इंजीनियरिंग सेवा प्रदाताओं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विकास पर (ईएसपी) का बाजार साल 2020

> के 4.5 अरब यूरो के मुकाबले साल 2030 तक बढ़कर करीब 12 अरब यूरो तक पहुंचने का मौजूदगी बढ़ाने और अनुमान है। नैसकॉम

> > अनुसार भारतीय ईआरऐंडडी क्षेत्र लगभग 7 प्रतिशत की दर से प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच सबसे तेजी से बढ़

रहा है और अब इसका मूल्य लगभग 56 अरब डॉलर है।

वाहन क्षेत्र के अलावा जिन अन्य क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हैं. उनमें एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र भी शामिल हैं। विमान विनिर्माता कंपनी एयरबस को वैश्विक महामारी के बाद की दुनिया में ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मशक्कत कर रही है और यूरोपीय देश इंजीनियरिंग क्षमता का तेजी से इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि वे अपना रक्षा खर्च

सीसीआई ने ऐपल से मांगा जवाब

प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऐप स्टोर बाजार में दबदबे वाली स्थिति के दुरुपयोग के मामले से संबंधित अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट पर ऐपल से अक्टबर के मध्य तक जवाब या आपत्तियां मांगी हैं। सुत्रों ने यह जानकारी दी है।

सीसीआई ने शिकायतकर्ता, गैर-लाभकारी संस्था टुगेदर वी फाइट सोसाइटी से भी जांच रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहा है। इसके अलावा ऐपल को दंड निर्धारण के लिए साल 2022 से 2024 तक के अपने वैश्विक और भारतीय कारोबार का विस्तृत

साथ साझा करना होगा। सूत्रों के अनुसार सीसीआई ने अगस्त के आ खिर में आईफोन विनिर्माता और स्चना देने वालों को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट पर छह सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए कहा था। ऐपल को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। पिछले साल प्रतिस्पर्धा रोधी नियामक ने अपनी जांच रिपोर्ट वापस ले ली थी, क्योंकि ऐपल ने शिकायत की थी कि उसके व्यावसायिक रहस्यों का खुलासा विरोधियों को किया गया था। *बीएस*

वित्तीय विवरण भी सीसीआई के

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

क्लब परिसर पंचशील पार्क शाखा, नई दिल्ली-110017

कब्जा सूचना (चल/अचल सम्पत्ति के लिए) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबिक, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंचशील पार्क शाखा, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अंतर्गत उधारकर्ता मैसर्स ए के एंटरप्राइजेज, पताः 317, मेन रोड, सुल्तानपुर, नई दिल्ली-110030, खाता संख्या (3233099810), को एक मांग नोटिस दिनांक 04.09.2024 को जारी किया गया था, जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 4,48,329.59 (रु. चार लाख अड़तालीस हजार तीन सौ उनतीस और उनसठ पैसे मात्र) तथा दिनांक 04.09.2024 से भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज और अन्य शुल्क उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अंतर्गत नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 09 सितम्बर 2025 को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंचशील पार्क शाखा, नई दिल्ली के प्रभार वास्ते राशि रु. 4,48,329.59 (रु. चार लाख अड़तालीस हजार तीन सौ उनसठ पैसे मात्र) की राशि और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा (13) की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः

प्राइवेट नं. जी-03, संपत्ति सं. 0201 / 1 जी / एफ बिना छत के अधिकार के, ग्रीन वैली अपार्टमेंटस, वार्ड सं. 02. खसरा सं. 1151 / 3. महरौली, नई दिल्ली–110030 । क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट, आवासीय प्लॉट, सीमाएं: दक्षिणः संपत्ति सं. 201 / ए उत्तर: गली

पश्चिमः संपत्ति संख्या २०१ / २ पूर्वः गली / संपत्ति सं. 200

तिथिः 09/09/2025

(प्राधिकृत अधिकारी), सेंटल बैंक ऑफ इंडिया

स्थानः नई दिल्ली

मणिभवनम होम फाइनैंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ManiBhaunam

(परिशिष्ट IV) नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) चूंकि, मणिभवनम होम फाइनैंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां बाद में "एमबीएचएफं" कहा गया है)

दिनांक 17,06,2021 की एक अधिसुचना के मार्फत एमबीएचएफ केन्द्रीय सरकार द्वारा भलीभाति अधिकृत है, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उद्देश्य के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका **पंजीकृत कार्यालयः दूसरी** मंजिल, एन-२, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 में स्थित है, के अधिकत अधिकारी द्वार वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 वर्ष 2002) (जिसे यहां बाद में "अधिनियम" कहा गया है) के प्रावधानों के अधीन तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नेयम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकता करने के लिए नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों को एक मांग सूचना जारी की गई थी। कर्जदार द्वारा संबंधित रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभति हित (प्रवर्तेन) नियम 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे उल्लेखित तारीख को निम्नलिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन गधारण को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा संबंधित रकम तथा उस पर ब्याज तथा अन्य शुल्कों की राशि के लिए एमबीएचएफ के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया

कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम एवं पताः- श्रीमती वसीहा मलिक एवं श्री इरफान खान. मांग सूचना की तारीखः 26.06.2025, ऋणं खाता सं : HL0000000009259, मांग सूचना की रकमः दैनांक **23.06.2025** की स्थिति के अनसार **रु. 23.95.621.15/-। अचल सम्पत्ति का विवरण:**- ग्राम दबस्त बामहेता हाजीपुर परगना एवं तहसील लोनी जिला गाजियाबाद, उ.प्र. के क्षेत्र में अमर विहार के ताम से ज्ञात कॉलोनी में स्थित खसरा सं. 85 में से 100 वर्ग यार्ड (यानी 83 61 वर्ग मीटर) परिमाप क्षेत्रफल की सम्पत्ति सं. 76 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। **परिमाप : 100 वर्ग यार्ड। चौहंदी: पूर्व**: ?O फीट रास्ता, **पश्चिम:** अन्य की सम्पत्ति, **उत्तर:** अन्य की सम्पत्ति, **दक्षिण:** अन्य की सम्पत्ति। **कब्ज** की तारीखः 11 सितम्बर, 2025। स्थानः गाजियाबाद।

तारीखः- <mark>15.09.2025</mark>

ह./-अधिकृत प्राधिका

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

अधिकृत अधिकारी मणिभवनम होम फाइनैंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

बेहतर मुल्यांकन के लिए ...

के साथ 224.8 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है।

आईटी फर्मों को बदलना होगा कलेवर-तेवर

अभीक दास बेंगलूरु, 14 सितंबर

दीवार पर लिखी इबारत साफ है -अगर भारतीय कंपनियां एनवीडिया या ओरेकल जैसी कामयाबी पाना चाहती हैं. तो उन्हें नई रणनीति अपनानी होगी यानी शेयर के दामों में ऐसी आश्चर्यजनक उछाल जो कंपनियों को अलग मुकाम पर पहुंचा दे जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न रहे। ओरेकल के नवोदय से पता चलता है कि जब कोई कंपनी तकनीकी बदलाव के संबंध में खुद को नए सिरे से ढालने के लिए पूंजी लगाती है, तो क्या हो सकता है।

एचएफएस रिसर्च के संस्थापक और मख्य कार्य अधिकारी फिल फर्श्ट ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'भारतीय आईटी कंपनियां यह सीख सकती हैं कि शेयरधारकों का मृल्य

कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता

अगआई से आता है, केवल मार्जिन बरकरार रखने से नहीं। लाभांश बांटने वाले बैंक की तरह व्यवहार न करें. बल्कि भविष्य को आकार देने वाली तकनीकी कंपनी की तरह व्यवहार करें।'

चूंकि एआई कारोबार के नियमों को बदल रही है, इसलिए भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र की कंपनियों को लेकर आलोचना बढ़ रही है। विश्लेषकों और उद्योग विशेषज्ञों ने अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) में और अधिक पुंजी निवेश करने तथा एआई-आधारित और अधिक अनुप्रयोगों के निर्माण की आवश्यकता बताई है ताकि वे प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों के रूप में अपनी स्थिति फिर से जमा सकें क्योंकि एआई, जेन एआई और एजेंटिक एआई के प्रभाव

निरंतर नवाचार और बाजार की के कारण उनके नीचे की जमीन हिल रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अब

समय आ गया है कि ये कंपनियां, चाहे

वे बड़ी हों या मझोली. खर्च के लिए अपने पास रखी ढेर सारी नकदी को अधिक एआई-संचालित समाधानों तथा अनुप्रयोग बनाने पर लगाएं या लक्ष्यबद्धं अधिग्रहणों के साथ वृद्धि करें। यह कुछ ऐसा है, जो इस क्षेत्र की अग्रणी एक्सेंचर की पहचान रही है। फर्श्ट ने कहा, 'एक्सेंचर ने अनुसंधान एवं विकास में अपने अनवरत पुनर्निवेश, निरंतर क्षमता निर्माण और अपने खुद के वितरण मॉडल में बदलाव की चाह के साथ रणनीति तैयार की है। उसने पुनर्खरीद पर निर्भर रहने के बजाय उद्योग में गहरी प्रासंगिकता बनाए रखने और आईपी निर्माण पर ध्यान दिया है।'

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के

अनुसार एक्सेंचर ने अगस्त 2024 को समाप्त अपने वित्त वर्ष के दौरान अनसंधान एवं विकास पर 1.2 अरब डॉलर खर्च किए। इस निवेश ने एआई, डिजिटल परिवर्तन और विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों के लिए नई तकनीकों और सेवाओं के विकास जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया। उसने इस साल 10 कंपनियों का अधिग्रहण किया और एआई, शिक्षा तथा कार्यबल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वह अपने तकरीबन 8,00,000 लोगों के विशाल श्रमबल को नए युग की क्षमताओं के लिहाज से दोबारा कौशल संपन्न और प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्सन के

आंकडों के अनसार साल 2019 से 2024 तक प्रति वर्ष अधिग्रहणों की औसत संख्या 33.2 रही।

सार्वजनिक सूचना

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing nance Limited Ghar Ki Baat मेरठ शाखाः– प्रथम तल, पिनेकल टावर, वैशाली कॉर्नर, गढ़ रोड, मेरठ–250004, (उत्तर प्रदेश) नोएडा शाखाः– भृतल, डी–2, सेक्टर–3, नोएडा (उत्तर प्रदेश)–201301

प्रतिम्पति हित (प्रवर्तन) नियमावती, २००२, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के अध्याय ।।। की घारा 13(2) के अधीन सूचना तेकरेण और पुनरिमंगिण एवं प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की घारा 13(2) के अधीन सूचना हाउसिंग फाइनेंस विमिटंड (इसमें आगे ''प्रिप्तीपचण्डण्डल' के अघ में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनरिमंगण एवं प्रतिभृति हित एवर्तन 1002 (इसमें आगे 'अधिनियम' के रूप में वर्णित) के अध्याय III की चारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारों को प्रति के प्रति मांग एवं प्रतिभृति हित एवर्तन 1002 (इसमें आगे 'अधिनियम' के रूप में वर्णित) के अध्याय III की चारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारों को प्रति के प्रति पर्णा के कारों में अधिकारी द्वारा प्रति के कारों में अधिन के अपने के कारों में अधिकारी द्वारा प्रति के विद्या के अपने अधिकारी हैं अधिकारी द्वारा प्रति के विद्या में अध्ये के द्वारा मुंचिन की किश्तों के अनुसार अनुजित आरित के प्रति में में अधिकारी प्रति के प्रति के स्वारा प्रति के प्रति में अधिकारी के अधीन अधीन के प्रति के प्रति के प्रति के स्वारा में अधीन के प्रति के स्वारा में अधीन के प्रति के स्वारा में अधीन अधीन के प्रति के प्रति के स्वारा में अधीन अधीन के प्रति के प्रति के प्रति के प्रति के प्रति के स्वारा में अधीन के प्रति के प्र

	GIMI (I.	विजय सबलाक आर मनता सबलाक पता 1- 72 इदिश नगर,			का ाताथ	अनुसार बकावा साश	- 1
	E/0022/1 007001, बी.ओ.	ए एस इंटर कॉलेज के सामने, मोइल्ला मुन्नालाल, मवाना कला, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250401, पता:2— प्लॉट नंबर—198 पर घर, खसरा नंबर 1575, आकांशा एक्सटेंशन कॉलोनी, मवाना कला, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250401, विजय सबलोक पता:3— प्रोप, मैसर्स अनन्या कन्फेशनरी, पुजपफरनगर बस स्टेंड के सामने, मोइल्ला मुन्नालाल, मवाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250401।	NA	मकान प्लॉट नंबर 198, खसरा नंबर 1575, आकांशा एक्सटेंशन कॉलोनी, मवाना कला, मेरठ, उत्तार प्रदेश–250401।	09.09.2025	09-09-2025 रु. 48,36,487.75/- (रुपये अड़तालीस लाख छत्तीस हजार चार सौ सत्तासी और पचहत्तर पैसे मात्र)	
	I/0724/1 288571, बी.ओ. नोएडा	साइड आरएचएस, सुदशन पाक, विल्ला–110015, जागि दर कुमार पता:3— श्री बालाजी एंटरप्राइजेज, 1 हैफेड प्लांट के पास, सुखपुरा चौक, रोहतक, हरियाणा–124001।	NA	प्रोप नं. एफ—112, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार के साथ, सामने की ओर आरएचएस, सुदर्शन पार्क, दिल्ली—110015।	09.09.2025	(रुपये बावन लाख छिहत्तर हजार एक सौ अठासी और बत्तीस पैसे मात्र)	
स्थान : दिल्ली एनसीआर, दिनांकित : 15-09-2025 प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिम्						नबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड	

तद्वारा सूचित किया जाता है कि श्री बलबीर पुत्र स्व. श्री मंगत वासी-ग्राम सरफाबाद परगना व तहसील दादरी, जिल तमबद्ध नगर उत्तर प्रदेश, जो कि आवासीय भखंड (5% तथ्य। SB-130/2 सेक्टर-70 नीएडा जिला गीतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 56.80 वर्ग मीटर के स्वामी है, श्री बलबीर व्र स्व. श्री मंगत की मृत्यु दिनांक:-02/06/2014 को हो गया !। बलबीर प्रस्त स्व । बलबीर पत्र स्व. श्री मेंगत ने उपरोक्त आवासीय भखंड वे गपेक्ष एक पंजीकृत वसीयत जो कि बही संख्या-3 जिल में, श्री जयवीर व राजवीर पुत्रगण श्री जयपाल, निवासी ग्राम ।, श्रा जयवार च राजपार चुनाल का जन, गरफाबाद परगना व तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का पक्ष में रिकस्ट्रीकृत किया गया है। अतः वसीयत के आधार पर आवासीय भूखंड (5%) संख्या SB-130/2 सेक्टर-70 नीएडा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 56.80 वर्ग मीटर के स्वामी श्री जयवीर व राजवीर

नुत्रमण अहे. जयपाल, निवासी ग्राम सरफाबाद परगना तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश होगें । गवासीय भूखंड (5%) संख्या SB-130/2 सेक्टर-70 नौए जेला गौतम बद्ध नगर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 56.80 वर्ग मीट का अंतरण श्री जयवीर व राजवीर पुत्रागण श्री जयपाल, निवासी प्राप्त सरफाबाद परगना व तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध गगर उत्तर घ्रदेश होगें के पक्ष में नौएडा प्राधिकरण में प्रस्तुत केया गया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किस भी प्रकार की आपत्ति है तो कपया अपनी आपत्ति समक्ष साक्ष सिह्नत नौएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखंड विभाग में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर दाखिल कर

दिल्ली संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड, डी –210 –211, सेक्टर –63 नोएडा –201301 उ.प्र. और डी.बी कॉर्प लिमिटेड 10, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर – 302015 से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादूर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन – 011–23720202/23762742

सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई–400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

.continued from previous page.

Tel: + 91 22 4646 4728

Place: Bengaluru, Karnataka

Date: September 13, 2025

IIFL CAPITAL

IIFL CAPITAL SERVICES LIMITED (formerly known as IIFL Securities Limited) 24th Floor, One Lodha Palace, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai - 400 013, Maharashtra, India

E-mail: Ivalue.ipo@iiflcap.com Investor Grievance e-mail: ig.ib@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com Contact person: Mukesh Gard/ Pawan Kumar Jain SEBI Registration No.: INM000010940

MOTILAL OSWAL INVESTMENT ADVISORS LIMITED

Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 7193 4380

motilal oswal

E-mail: lvalueipo@motilaloswal.com Investor grievance e-mail: moiaplredressal@motilaloswalgroup.co Website: www.motilaloswalgroup.com Contact Person: Ritu Sharma SEBI Registration: INM000011005

▲ KFINTECH

REGISTRAR TO THE OFFER

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Selenium, Tower B, Plot No. 31 and 32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi - 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222

E-mail: Ivalue.ipo@kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact person: M. Murali Krishna SEBI Registration No.: INR000000221

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Lakshmammanni

Company Secretary and Compliance Officer

No. 903/1/1. 19th Main Road, 4th Sector, HSR Layout, Bengaluru - 560 102, Karnataka, India. E-mail: investors@ivalue.co.in Tel.: 080-2222 1143

Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related grievances including nonreceipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer related queries and for redressal of complaints, Investors may also write to the BRLMs

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the section titled "Risk Factors" on page 42 of the RHP, before applying in the Offer. A copy of the RHP shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of the Company at www.ivaluegroup.com; and on the websites of the BRLMs, i.e. IIFL Capital Services Limited (fromerly known as IIFL Securities Limited) and Motilal Oswal Investment Advisors Limited at www.ivaluegroup.com, and www.motilaloswalgroup.com, respectively.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, the BRLMs and the Registrar to the Offer at www.ivaluegroup.com, www.iiflcap.com and www.kifintech.com, respectively. AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Bid cum Application Forms can be obtained from the Registered and Corporate Office of Ivalue Infosolutions Limited, Tel: +91-80-2222 1143; BRLMs: IIFL Capital Services Limited Tel: +91-22 4646 4728 and Motilal Oswal Investment Advisors Limited Tel: +91 22 7193 4380, Syndicate Members: Motilal Oswal Financial Services Limited, Tel: +91 22 7193 4200 / +91 22 7193 4200 / +91 22 7193 4203 and at the Select locations of the Sub-syndicate Members (as given below), SCSBs, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of BSE and NSE and the Designated Branches of SCSBs, the list

of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI. Sub-Syndicate Members: Almondz Global Securities Limited, Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited, Asit C. Mehta Investment Interrmediates Limited, Centrum Broking Limited, Dalal & Broacha Stock Broking Private Limited, Finwizard Technology Private Limited, HDFC Securities Limited, Centrum Broking Limited, Broacha Stock Brokers Limited, Finwizard Technology Private Limited, HDFC Securities Limited, ICICI Securities Limited, IFL Capital Limited, WM Financial Services Limited, KJMC Capital Market Services Limited, KP Securities Limited, Prabhudas Lilladher Pvt. Limited, Pravin Ratilal Share And Stock Brokers Limited, RR Equity Brokers Private Limited, SBICAP Securities Limited, ShareKhan Limited, SMC Global Securities Limited, SS Corporate Securities Limited, Tradebulls Securities Pvt. Limited, Upstox Securities Private Limited and Yes Securities (India) Limited

 Refund Bank : ICICI Bank Limited Sponsor Banks: Axis Bank Limited and ICICI Bank Limited Escrow Collection Bank: ICICI Bank Limited Public Offer Account Bank: Axis Bank Limited All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For IVALUE INFOSOLUTIONS LIMITED On behalf of the Board of Directors

Lakshmammanni Company Secretary and Compliance Officer

IVALUE INFOSOLUTIONS LIMITED (the "Company") is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and filed the RHP dated September 13, 2025 (the "RHP") with the RoC. The RHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com, respectively, on the website of the BRLMs, i.e. Illine Capital Seventiaes Limited at www.inflcap.com and www.motilaloswalgroup.com, respectively. Any potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges, and should instead rely on the RHP, for making any investment decision.

This announcement is not an offer of securities for or securities for or securities for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities for or securities for sale in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales occur. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer or the selling security holder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. No public offering or sale of securities in the United States is contemplated. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

CLUB PREMISES PANCHSHEEL PARK BRANCH, NEW DELHI-110017 **POSSESSION NOTICE** (For Movable/ Immovable Property) [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Panchsheel Park Branch, New Delhi under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with the Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 04.09.2024, calling upon the **Borrower:** M/S A K ENTERPRISES, Address: 317, Main Road, Sultanpur, New Delhi-110030, A/c. No.(3233099810), to repay the amount mentioned in the notice being Rs.4,48,329.59 (Rupees Four Lakh Forty Eight Thousand Three Hundred Twenty Nine and Fifty Nine Paise Only) plus further interest, and other charges from 04.09.2024 to till date within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this day 09th Day of September 2025. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of **Central** Bank of India, Panchsheel Park Branch, New Delhi for an amount of Rs.4,48,329.59 (Rupees Four Lakh Forty Eight Thousand Three Hundred Twenty Nine and Fifty Nine Paise Only) and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section (13) of the SARFAESI Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Pvt. No. G-03, Property No. 0201/1 G/F Without Roof Rights Green Valley Apartments Ward No.02, Khasra No.1151/3 Mehrauli New Delhi-110030. Area 400 Sq.Ft. Residential Plot **Bounded By:** South: Property No.201/A

North: Gali East: Gali/Property No. 200 DATE: 09/09/2025 PLACE: NEW DELHI

West: Property No.201/2 **Authorised Officer)** Central Bank of India

Registered Office



Apcotex Industries Limited

Registered Office
C-403/404, 4th Level, Wing C, Tower 1, Seawoods
Grand Central, Sector 40, Navi Mumbai – 400706,
Maharashtra, India +91-22-62060800
www.apcotex.com Email: redressal@apcotex.com
CIN: L99999MH1986PLC039199

NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING 100 DAYS CAMPAIGN - SAKSHAM NIVESHAK

This is to inform you that the Investor Education and Protection Fund Authority ('IEPF Authority'), Ministry of Corporate Affairs, vide its Communication dated 16th July, 2025, requested companies to launch a 100 days Campaign Saksham Niveshak effective 28th July, 2025 to 6th November. 2025, targeting all shareholders whose dividends have remained unpaid/unclaimed. Accordingly, Apcotex Industries Limited ('the Company') has initiated this "100 days campaign - Saksham Niveshak", to enable our shareholders to claim the unpaid/unclaimed dividend and to update their KYC details

Purpose of the campaign: To create awareness among shareholders to update their KYC details and claim any unpaid or unclaimed dividends before they get transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF')

Action for shareholders: Pursuant to the aforesaid Circular, all shareholders whose dividends have remained unpaid/unclaimed or Non-KYC compliant shareholders are requested to update their KYC details such as PAN. Email ID. Contact Number, Address, Bank Details and Nomination etc., in order to ensure timely receipt of the dividends declared by the Company directly to bank accounts and preventing transfer of such dividends and shares to the IEPF.

For the purpose of updating the KYC details, shareholders are advised to submit below documents:

a) Form ISR-1 duly filled in along with self-attested supporting documents for updation of KYC details;

b) Form ISR-2 duly filled in with banker attestation of signature along with original cancelled cheque with your name(s) printed thereon or self-attested copy of bank passbook/statement: and

c) Form SH-13 for updation of Nomination for the aforesaid folio or ISR-3 for Opt-out of the Nomination.

The formats of ISR for updation of KYC details viz. Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 are available on the website of the Company and the RTA at https://apcotex.com/investorkvc and https://web.in.mpms.mufg.com/KYCdownloads.html respectively.

Shareholders holding shares in physical form are requested to update their KYC details and claim their unpaid dividends by sending the Investor Service Request Forms (ISR) along with requisite supporting documents to the RTA of the Company, MUFG Intime India Private Limited at C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Tel. No.: 08108116767, Toll Free No. 1800 1020 878, e-mail: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com. Shareholders holding shares in demat mode may approach their respective Depository Participants (DP) for updating the KYC details.

Since dividend on shares is payable only through electronic mode, the same will be directly credited to the shareholder's respective bank accounts. Further, the Company has also sent specific intimation to Non-KYC compliant shareholders. advising them to update their KYC details as mandated under SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7th May, 2024.

For Apcotex Industries Limited Drigesh Mittal Company Secretary



CIN: L25209UP1971PLC003444 Regd. Office - D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur - 208 022 TEL: +91 (0512) 2691 113 - 6; FAX: +91 (0512) 2691117; Email: secretary@kanplas.com; Web: www.kanplas.com

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02. 025, the Company is pleased to offer a one-time Special Window for shareholders to subr lodgement requests for the transfer of physical shares

his Special Window will be open from July 07, 2025 till January 06, 2026, and is specifically pplicable to cases where the original transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 nd were returned or rejected due to deficiencies in documentation, process, or any other

Kindly note that during this window, shares re-lodged for transfer will be processed only ematerialized (demat) form.

ligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents ne Company or its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) within the stipulated period.

Mr. Ankur Srivastava Company Secretary & Compliance Officer Kanpur Plastipack Limited D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur-208022 Tel: +91 512 2691113-116

Email: secretary@kanplas.com

Skyline Financial Services Private Limite Registrar and Share Transfer Agent D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I. New Delhi - 110 020 Tel: +91-11-40450193-97, 26812682-83 Email id: info@skylinerta.com

For Kanpur Plastipack Limited

(Ankur Srivastava)

Place: Kanpur Company Secretary & Compliance Officer Date: 13.09.202



India • Tel: 022-22006666, 22772000 • Website: www.shipindia.com Twitter: @shippingcorp • CIN : L63030MH1950G0I008033

NOTICE TO SHAREHOLDERS 100 DAYS CAMPAIGN - "SAKSHAM NIVESHAK" - JULY 28, 2025 TO

NOVEMBER 6, 2025, UPDATE YOUR KYC DETAILS AND CLAIM YOUR UNPAID/UNCLAIMED DIVIDENDS

AN INITIATIVE UNDER THE GUIDANCE OF INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS) Notice is hereby given to shareholders of The Shipping Corporation o

India Limited that pursuant to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) letter dated 16 July, 2025, Company has started a 100 Days campaign special outreach initiative titled "Saksham Niveshak" from July 28, 2025 to November 06, 2025. During this Campaign all the shareholders who have not claimed their Dividend or have not updated their KYC & nomination details or face any issues related to unclaimed dividends and shares may write to the Company's Registrar and Transfe Agent ("RTA") i.e. Alankit Assignments Limited (Unit: The Shipping Corporation of India Limited) 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalar Extension. New Delhi-110055. E-mail: rta@alankit.com and Contact No 011-42541234.The shareholders who hold shares in demat form ar requested to approach their Depository Participants where they maintain their demat accounts for updating their KYC requirements. The shareholders may further note that this campaign has been started proactively and specifically to reach out to the shareholders to update their KYC, bank mandates. Nominee and contact information etc. and claim their unpaid/unclaimed Dividend in order to prevent their shares and dividend amount from being transferred to the Investor Education and Protection Fund. For THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LIMITED

Smt Swapnita Vikas Yadav Place: Mumbai Company Secretary & Compliance Officer Date: 15/09/2025



We understand your world

HDFC Bank Limited Registered Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg,

Lower Parel (West), Mumbai 400 013 [CIN: L65920MH1994PLC080618]

www.hdfcbank.com] [E-mail: shareholder.grievances@hdfcbank.com] [Website: [Tel. No.: 022 6631 6000] **NOTICE TO SHAREHOLDERS**

100 DAYS CAMPAIGN - "SAKSHAM NIVESHAK" FOR

SHAREHOLDERS

With a view to assist shareholders in taking necessary steps so as to reduce transfer of Unpaid/Unclaimed Dividends to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") and in line with the instructions of IEPF Authority, HDFC Bank Limited ("the Bank") has launched a 100-day Campaign - "Saksham Niveshak" n line with this initiative, the concerned shareholders of the Bank are requested to claim their unclaimed/unpaid dividend(s) by updating their KYC details i.e. PAN, Bank account details, contact details, choice of nomination,

pecimen signature by following the below procedure:						
Mode of holding	Documents to be submitted with Datamatics					
	Business Solutions Limited i.e. Datamatics					
	(Registrar and Transfer Agent of the Bank)					
Shares held in	Download the forms for KYC updation from					
physical mode	https://www.datamaticsbpm.com/registrar-and-					
	transfer-agent/information-to-shareholders/ and					
	submit the duly filled and signed forms along with					
	KYC documents to Datamatics at address provided					
	hereinbelow					
Shares held in	Contact your Depository Participant for updating					
dematerialized mode	KYC details and submit a self-attested copy of the					
	updated Client Master List (CML) reflecting active					
	bank details to Datamatics					

For any queries on above matter, shareholders are requested to contact

Datamatics Business Solutions Limited Plot No A-16 & 17, Part B Cross lane, MIDC, Andheri (East), Mumbai 400093, Tel. No. 022 - 66712213-14

Email :- hdinvestors@datamaticsbpm.com

Scan QR for accessing the forms for KYC updation



Place: Mumbai

Date: September 13, 2025

Please note that in terms of the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013, dividends not encashed or claimed within seven years from the date of its transfer to the unpaid dividend account, will be transferred to the IEPF.

> For HDFC Bank Limited Ajay Agarwa

Company Secretary Group Head - Secretarial & Group Oversight Membership No. FCS 9023

ීට GSPL India Gasnet Limited

CIN: U40200GJ2011SGC067449 Corp. Office: "GSPL Bhavan, Sector-26, Gandhinagar-382 028 Tel: +91-79-23268500 Fax: +91-79-23268875 Website: www.gspcgroup.com

NOTICE INVITING TENDER

GSPL India Gasnet Limited (GIGL), Joint venture Company promoted by GSPL IOCL, BPCL and HPCL is laying a gas grid, to facilitate gas transmission from supply points to demand centres. GIGL invites bids from reputed pipeline construction companies for following requirements vide "Single Stage, Three-Part" open biddin

Pipeline and Associated Works for Pali-Jodhpur Spur line Project (8" X 87 Km approx.) on EPC basis.

Aforementioned tender shall be published online through n-Procure, and bids are acceptable through n-Procure (https://gigltender.nprocure.com/) only Date of tender upload on n-Procure portal is 15-09-2025@1500 hrs. IST



Mahanadi Coalfields Limited (A Subsidiary of Coal India Limited) Jagruti Vihar, Burla - 768020, Dist. - Sambalpur, Odisha Ph. (EPABX) : 0663-2542461 to 469 Website : www.mahanadicoal.i **Notice**

'All the tenders issued by CIL and its Subsidiaries for procurement of Goods, Works and Services are available on website of Coal India Ltd. www.coalindia.in, respective

subsidiary Company, (MCL, www.mahanadicoal.in) CIL e-procurment portal https://coalindiatenders.nic.in and Central Public Procurement Portal https://eprocure gov.in In addition, procurement is also done through GeM R-5269 portal https://gem.gov.in".

VESUVIUS

VESUVIUS INDIA LIMITED Regd. Office: P-104 Taratala Road, Kolkata - 700088 CIN: L26933WB1991PLC052968 Phone: (033)61090500 Email: vesuviusindia@vesuvius.com Website: www.vesuviusindia.ir

NOTICE TO SHAREHOLDERS

100 Days Campaign- "Saksham Niveshak" - for KYC and other related updation and shareholder engagement to prevent transfer of Unpaid / Unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Notice is hereby given to the Shareholders of Vesuvius India Limited (" the Company") that

pursuant to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA"), Ministry of Corporate affairs ("MCA") letter dated July 16, 2025, the Company has started a 100 days campaign "Saksham Niveshak" starting from July 28, 2025 to November 6, 2025 During this Campaign all the shareholders who have not claimed their Dividend or have not updated their KYC & nomination details or face any issues related to unclaime dividends and shares may write to the Company Registrar and Transfer Agent namely M/s CB Management Services Private Limited at: Rasoi Court 5th floor 20. Sir R I Mukherjee Road, Kolkata - 700001, Tel: 033-6906-6200 or e-mail ranu.deytalukdar@in.mpms.mufg.com; ranarc@cbmsl.co; ranjanm@cbmsl.co. E-mai can also be send to the Company at vesuviusindia@vesuvius.com. This campaign is being done to reach out to the shareholders urging them to update their KYC, ban mandates, nominee details, contact information etc, for claiming their unpaid/unclaime Dividend in order to prevent their shares and dividend amount from being transferred to the IEPFA.

For Vesuvius India Limited

Date: 15th September 2025

Saheh Al Company Secretary and Complience Officer

CARE RATINGS LIMITED

(CIN: L67190MH1993PLC071691)

Regd. Office: 4th Floor, Godrej Coliseum, Somaiya Hospital Road, Off Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai - 400022.

Tel: 022-67543456 - Fax: 022-67543457 Email: investor.relations@careedge.in, Website: www.careedge.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Launch of "Saksham Niveshak" Campaign -Action Required for Unclaimed Dividends and **KYC Updates**

Dear Shareholders.

Pursuant to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Ministry of Corporate Affairs (MCA) letter dated 16th July 2025, CARE Ratings Limited are pleased to inform you of the commencement of a 100-days special outreach initiative titled "Saksham Niveshak", starting from 28th July 2025 to 6th November 2025. This campaign is being undertaken to facilitate shareholders in updating

Know Your Customer (KYC) details including

 Bank account mandates Nominee Registration

Contact information (email, mobile number, address)

his campaign is also being undertaken to facilitate the shareholders to claim their Unpaid/Unclaimed Dividends for any financial year in order to prevent their dividend

amount shares being transferred to IÉPFA Action Required Shareholders who have not claimed their dividends or have incomplete KYC records

are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) at the M/s KFin Technologies Ltd. Unit: CARE Ratings Limited (CARE)

Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032, Telangana Tel.: 040 – 67162222 Toll Free No: 1800-3094-001 Email: einward.ris@kfintech.com

Important Advisory Please note that as per applicable provisions, if dividends remain unclaimed for a period of seven consecutive years, the dividend amounts, and corresponding base

shares (if available) are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA). We urge all shareholders to take prompt action during the campaign period to safeguard their entitlement and ensure compliance with statutory require

For CARE Ratings Limited

Manoj Kumar CV

Date : September 15, 2025

Company Secretary & Compliance Officer



BERGER PAINTS INDIA LIMITED (CIN: L51434WB1923PLC004793) Registered Office: Berger House, 129 Park Street, Kolkata - 700017

Corporate Office: Plot No. CF-4, Action Area IC New Town, Kolkata 700156, Telephone: 91477 20400 E mail: consumerfeedback@bergerindia.com Website: www. bergerpaints.com Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests

of Physical Shares of Berger Paints India Limited Pursuant to SEBI Circular No.SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97

dated 2nd July, 2025, all shareholders are hereby informed that a Special Window is being opened for a period of 6 (six) months, from 7th July, 2025 to 6th January, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares. This facility is available for Transfer deeds lodged prior to 1st April

2019 and which were rejected, returned, or not attended due to deficiencies in documents / process / or otherwise Investors who have missed the earlier deadline of 31st March

2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registra and Transfer Agent (RTA) i.e. M/s C B Management Services (P) Limited at 20 R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata -700001 Telephone No.: 033 69066200, E-mail: rta@cbmsl.com.

All shares re-lodged during the aforesaid period will be processed on merits through the transfer-cum demat mode i.e., they will be issued only in dematerialised form after transfer. The lodger musi have a demat account number and provide his/her Client Master List, along with the transfer documents and share certificates while lodging the documents for transfer with RTA. Transfer requests submitted after 6th January, 2026 will not be accepted by the Company/RTA.

For Berger Paints India Limited

Arunito Ganguly (FCS-9285) Place : Kolkata Dated: 15th September 2025 Vice President & Company Secretary

NOTICE



SUNDARAM MUTUAL

NOTICE is hereby given that Sundaram Trustee Company Limited, the Trustee to Sundaram Mutual Fund, has approved the

Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) on the face value of Rs 10/- under the following schemes:

RECORD DATE FOR INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL (IDCW)

Scheme Name	Plan	Option	Record Date #	Amount of IDCW* (Rs. per unit)	NAV per unit as on September 11, 2025 (Rs.)
Sundaram Aggressive	Regular	Monthly IDCW	September 17, 2025	0.250	27.5812
Hybrid Fund	Direct	Monthly IDCW		0.350	42.5466
undaram Balanced	Regular	Monthly IDCW		0.115	15.4883
Advantage Fund	Direct	Monthly IDCW		0.140	18.9764

Or subsequent business day if the specified date is a non-business day. * Income Distribution will be done/IDCW will be paid, net of tax deducted at source, as applicable.

Pursuant to the payment of IDCW, the NAV of the scheme will fall to the extent of payout and statutory levy, if applicable. The IDCW pay-out will be to the extent of above mentioned IDCW per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower. Past performance may or may not be sustained in future. All unitholders under the IDCW Option of the above-mentioned schemes, whose name appears on the Register of Unitholders on the aforesaid Record Date, will be entitled to receive the IDCW.

> For Sundaram Asset Management Company Limited, R. Ajith Kumar,

For more information please contact: Sundaram Asset Management Company Ltd (Investment Manager to Sundaram Mutual Fund) CIN: U93090TN1996PLC034615

Place: Chennai

Date: September 15, 2025

Corporate Office: 1st and 2nd Floor, Sundaram Towers 46, Whites Road, Royapettah, Chennai-14 Toll 1860 425 7237 (India) +91 40 2345 2215 (NRI www.sundarammutual.com Regd. Office: No. 21, Patullos Road, Chennai 600 002.

Company Secretary & Compliance Officer

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.